



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़ 1946 (श०)

(सं० पटना 620) पटना, सोमवार, 15 जुलाई 2024

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 अप्रैल 2024

सं० 6/नि०प्रति०नियु०-01-02/2024-2055/(वा०कर)—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार वित्त सेवा के लिए अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों (जिनका स्थायी अथवा अस्थायी पतों की चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है) को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतनमान लेवल-9 रु०-53100-1,67,800 में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त के रूप में औपबंधिक रूप से अगले छः माह के लिये नियुक्त किया जाता है:-

क्र० सं०	उम्मीदवारों का नाम	संयुक्त मेधा क्रमांक	आरक्षण कोटि	गृह जिला	अभ्युक्ति (वांछित कागजात)
1	2	3	4	5	6
1	अनुकृति मिश्रा	08	01(अनारक्षित)	मधुबनी	---
2	मिमांसा	10	01(अनारक्षित)	भागलपुर	---
3	श्री विश्वजीत	19	07 (आर्थिक रूप से कमजोर)	नवादा	---
4	शौर्या कीर्ति	20	05 (पिछड़ा वर्ग)	पटना	---
5	मेघा रानी	196	02 (अनु० जाति)	जमुई	इंटरमिडिएट (12 <sup>th</sup> ) मूल प्रमाण पत्र
6	श्री अभिषेक भार्गव	249	02 (अनु० जाति)	नालंदा	इंटरमिडिएट (12 <sup>th</sup> ) मूल प्रमाण पत्र

2. उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ अगले छः माह के लिये की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर उनकी सेवा तत्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी। छः माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन औपबंधिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा अगले छः माह के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर तब तक विस्तारित होता रहेगा, जब तक कि अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता है।

3. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

4. जिन अभ्यर्थियों ने जाँच के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्तम्भ-6 में यथा उल्लिखित वांछित प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया है, वे योगदान के साथ वांछित प्रमाण-पत्र राज्य-कर अपर आयुक्त के समक्ष समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है जिसे मूलरूप में प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

6. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

7. सभी अभ्यर्थी बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 19 (1) के तहत अपनी आस्तियों एवं दायित्वों की विवरणी सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में समर्पित करेंगे। विहित प्रपत्र सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/gad> पर उपलब्ध है।

8. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

9. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल में समर्पित करेंगे।

12. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे अधिसूचना निर्गमन के 03 दिनों के अन्दर अपना योगदान निश्चित रूप से राज्य कर अपर आयुक्त (राजपत्रित), वाणिज्य-कर विभाग, कर भवन, पूर्वी गार्डिनर रोड (न्यू पटना क्लब के निकट), पटना को समर्पित कर देंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
कृष्ण कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 620-571+300-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>